

# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

## सामान्य अध्ययन

### प्रारम्भिक परीक्षा-2017 (द्वितीय प्रश्न-पत्र)

समय : 2 घंटे

अधिकतम अंक : 200

- आप एक शैक्षिक संस्थान के शासी मंडल के सदस्य हैं। आप स्थानीय नगर निगम के भी सदस्य हैं। शासी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग शैक्षिक संस्थान को बढ़ावा देने में करें। आप क्या करेंगे?
  - इनकार कर देंगे क्योंकि यह अनैतिक है।
  - बढ़ावा देने को सहमत हो जायेंगे परन्तु किसी तरह की पहल नहीं करेंगे।
  - बढ़ावा देने को सहमत हो जायेंगे और सक्रिय कदम उठायेंगे।
  - सार्वजनिक रूप से इनकार कर देंगे परन्तु निजी रूप से सक्रिय बढ़ावा देंगे।
- आप एक प्रकाशन में स्वतंत्र पत्रकार हैं। आपका एक मित्र अपने उत्पाद को बढ़ावा देना चाहता है और आपको धन का प्रस्ताव देता है, यदि आप उसकी प्रचार सामग्री अपने नाम से प्रकाशित करें। आप क्या करेंगे?
  - प्रकाशित करने को तैयार हो जायेंगे लेकिन धन लेने से मना कर देंगे क्योंकि आप अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं।
  - बढ़ावा देने को तैयार हो जायेंगे और धन ले लेंगे।
  - सहमत नहीं होंगे क्योंकि यह अनैतिक है।
  - सहमत नहीं होंगे, अपने मित्र को किसी दूसरे पत्रकार के पास भेज देंगे।
- आप एक सिनेमाघर में हैं। चलचित्र के पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब राष्ट्रगान चल रहा होता है, तो भी कुछ कॉलेज के छात्र सीटों पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?
  - छात्रों से मारपीट करेंगे
  - उनका चित्र लेकर फेसबुक पर डाल देंगे
  - उनसे बातचीत न करने का अनुरोध करेंगे और पूछेंगे कि उनको खड़े होने में कोई कठिनाई है
  - चलचित्र प्रदर्शन बंद करवा देंगे जब तक कि छात्रों को हॉल से हटा नहीं दिया जाता
- आपकी प्रयोगशाला में सहायक के रूप में काम करने वाला एक व्यक्ति गरीब परिवार से आता है और वास्तव में पीएचडी करने को इच्छुक है। आप उसको अपने संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम में लेने के लिए उसकी कैसे सबसे अच्छी तरह से सहायता करेंगे?
  - चयन समिति के प्रमुख से बात करेंगे और उनसे इस प्रत्याशी का पक्ष लेने के लिए अनुरोध करेंगे क्योंकि वह कठिन परिश्रमी है और जरूरतमंद भी
  - प्रत्याशी को प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने में सहायता देंगे और उसकी सुसंगत पाठ्यपुस्तकें देंगे
  - कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके ऊपर है
  - चयन प्रक्रिया के बाद, चयन सूची में प्रत्याशी का नाम डालने के लिए समिति के सदस्यों से लड़ेंगे
- निर्देश (प्रश्न सं. 5 से 8) : निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए एक संदर्भ दिया गया है। दिये गये विकल्पों में से वह शब्द अथवा वाक्यांश चुनिए जो तत्सम्बन्धित संदर्भ के शब्द के अर्थ में सर्वाधिक निकट है।
  - सहायक : मंत्री की ओर से उनके सहायक ने प्रश्नों का उत्तर दिया।
    - अनुगामी
    - सहयोगी
    - विरोधी
    - मित्र
  - याचना : कातिल ने पीड़ित परिवार से दया याचना की।
    - माँगना
    - दोष देना
    - खंडन करना
    - अस्वीकार करना
  - हतोत्साह : प्रबंधक, प्रोग्रामर के प्रदर्शन से हतोत्साहित हो गया।
    - अप्रसन्न, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ
    - प्रसन्न, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप काम हुआ
    - प्रदर्शन से प्रभावित
    - भयभीत
  - भंग : टेनिस खिलाड़ी ने पिछले विश्व रिकॉर्ड को भंग कर दिया।
    - तोड़ना
    - मिले से चूकना
    - खेलने से इनकार कर दिया
    - धोखा दिया

**निर्देश** (प्रश्न सं. 9 से 13) : निम्नलिखित लेखांश को पढ़िये और उसके अंत में दिये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होने चाहिए।

तेंदुए बाघ से ज्यादा चालाक होते हैं। जिम कॉर्बेट ने कहा था कि सब कुछ कहने और करने के बाद भी बाघ सज्जन है। तेंदुआ की बाघ की अपेक्षा गाँव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की संभावना ज्यादा है। वह झोपड़ी की बगल में लेटा हुआ इसका इंतजार करता है कि कब एक खतरे से अनजान बच्चा बाहर आये और तब उसके गर्दन से दबोच ले, कोई भी आवाज नहीं होगी और बच्चा यूँ ही गायब हो जायेगा। एक बाघ एक बच्चे के लिए अपने को कभी-कभार तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए यह बहुत कम है। यह व्यय-लाभ का प्रश्न है। बाघ बच्चे को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा व्यय करेगा उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन उपलब्ध होगा। इसके बजाय वह एक भैंसे अथवा किसी खुरवाले जंगली शिकार को मारेगा जिससे उसको काफी अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। एक बाघ का वजन 180-230 किग्रा. होता है जबकि तेंदुआ लगभग 50 किग्रा. के आसपास। अपने सामान्य भोजन जैसे कि कुत्ते, बकरियाँ और मुर्गे आराम से सुलभ होने पर भी, तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं।

9. बाघ एक बच्चे के बजाय एक भैंसे को मारेगा
  - (a) क्योंकि एक भैंसे को मारना आसान है
  - (b) क्योंकि एक बच्चे को मारना कठिन है
  - (c) क्योंकि बाघ चालाक नहीं होते
  - (d) क्योंकि बाघ, बच्चे को पकड़ने और मारने में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसकी अपेक्षा उसे बहुत कम भोजन मिलेगा
10. तेंदुए बच्चों को उठाने पर उतर आते हैं
  - (a) जब सामान्य भोजन उपलब्ध नहीं होता
  - (b) सामान्य भोजन उपलब्ध होने के बावजूद
  - (c) जब बाघ, भैंसों का शिकार करते हैं
  - (d) जब वे गाँव में प्रवेश करते हैं।
11. निम्न कथनों में से कौन-सा असत्य है?
  - (a) बाघों की गाँव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की सम्भावना अधिक होती है।
  - (b) तेंदुआ की गाँव अथवा घरों में भी प्रवेश करने की संभावना अधिक होती है।
  - (c) बाघ बच्चों का शिकार शायद ही करेगा।
  - (d) तेंदुआ का सामान्य भोजन कुत्ते, बकरियाँ और मुर्गे होते हैं।
12. जिम कॉर्बेट ने कहा था कि
  - (a) तेंदुए चालाक जानवर हैं
  - (b) बाघ चालाक जानवर हैं
  - (c) तेंदुए सज्जन हैं
  - (d) बाघ सज्जन हैं
13. तेंदुए
  - (a) केवल बच्चों को खाते हैं
  - (b) केवल कुत्तों और बकरियों को खाते हैं
  - (c) केवल मुर्गों को खाते हैं
  - (d) कुत्ते, बकरियों, मुर्गों और बच्चों को खाते हैं

**निर्देश** (प्रश्न सं. 14 से 18) : निम्नलिखित लेखांश को पढ़िये और उसके अंत में दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर लेखांश पर आधारित होने चाहिए।

उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूहों में तितलियों और चीटियों को वर्गीकरण विज्ञान में, शायद सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। जबकि तितलियाँ पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हो सकती हैं, वयस्क तितलियाँ केवल कुछ पारिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अधिकांश प्रजातियाँ परागणकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। इसके विपरीत, चीटियाँ किसी भी परिस्थितिक व्यवस्था में एक बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। चीटियों को अधिकांश स्थलीय जगत को चलाने में एक मुख्य मिट्टी को उलट-पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली मानी जाती है। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिक व्यवस्था में, चीटियाँ भी परभक्षी, परागणकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता की भूमिका निभाती हैं।

14. निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?
  - (a) चीटियाँ और तितलियाँ दोनों परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं।
  - (b) तितलियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं, पर चीटियाँ नहीं।
  - (c) चीटियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं, पर तितलियाँ नहीं।
  - (d) न ही चीटियाँ और न तितलियाँ परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं।
15. तितलियाँ
  - (a) वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से नहीं जानी जाती हैं
  - (b) पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक हैं
  - (c) परभक्षी, परागकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता होती हैं
  - (d) अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाती है
16. चीटियों को अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है, क्योंकि
  - (a) वे परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं
  - (b) वे वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से जानी जाती हैं
  - (c) वे पारिस्थितिक व्यवस्था में एक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं
  - (d) वे मुख्य रूप से मिट्टी को उलट-पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली होती हैं
17. चीटियाँ और तितलियाँ
  - (a) पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक हैं
  - (b) उष्णकटिबंधीय कीट हैं
  - (c) वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से नहीं जानी जाती हैं
  - (d) पारिस्थितिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाती
18. तितलियों की अधिकांश जातियाँ परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं। अतः
  - (a) वे चीटियों की अपेक्षा, पारिस्थितिक व्यवस्था में एक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं
  - (b) वे अधिकांश स्थलीय व्यवस्था को चलाती हैं
  - (c) उनको वर्गीकरण विज्ञान में अच्छी तरह से जाना जाता है
  - (d) वे केवल कुछ ही पारिस्थितिक उपयुक्त स्थान को भरती हैं

19. भारत को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण-संबंधी चिंताओं से समझौता किए बिना इस संकट का सामना करने के लिए सरकार के समक्ष सबसे अच्छा विकल्प है
- लोगों को खाना पकाने के लिए पेड़ काटने की अनुमति देना
  - सौर पैनलों को बड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना
  - परमाणु सुरक्षा के मुद्दों के बारे में चिंता किए बिना परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाना
  - लोगों को और अधिक डीजल जेनरेटरों के उपयोग की अनुमति देना
20. एक व्यक्ति ने अपने मित्र से उसकी नई खरीदी हुई कार का रजिस्ट्रेशन नम्बर पूछा। सीधा उत्तर देने के बजाय, उसने इस प्रकार से उत्तर दिया - रजिस्ट्रेशन नम्बर में चार अक्षर और छः अंक है। पहले दो अक्षर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और अंतिम तीन अक्षर एक लेखन उपकरण को दर्शाते हैं। सभी अंकों का योग करने पर 20 आता है और पहले दो अंकों का योग 3 है। रजिस्ट्रेशन नम्बर है
- MP12AT5435
  - MP12AW5345
  - MP12EN3456
  - MP03EN5435
21. खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने मुफ्त बीज और रिआयती उर्वरकों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इसका अर्थ है कि
- उर्वरक सस्ते हैं
  - बीज, उर्वरकों से सस्ते हैं
  - बहुत-से लोग खेती पसंद करते हैं
  - बहुत-से लोग खेती छोड़कर जा रहे हैं
22. लगभग सभी देशों की सरकारों के राष्ट्राध्यक्षों ने CO<sub>2</sub> उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल पहल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब तक उठाये गये कदमों के अच्छे परिणाम नहीं निकले। यह दर्शाता है कि
- अतीत में कोई कदम नहीं उठाया गया
  - अतीत में लिए गये कदम बहुत अच्छे थे
  - आज CO<sub>2</sub> उत्सर्जन का कारण चुनौती बहुत गंभीर हो गई है
  - अतीत में CO<sub>2</sub> उत्सर्जन के कारण कोई चुनौती नहीं थी
23. मैत्री महत्वपूर्ण है, लेकिन सही मित्र चुनना और अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यथा, मैत्री एक बोझ बन जाती है। इसका तात्पर्य है कि
- बहुत से मित्र होने चाहिए
  - मैत्री हमेशा अच्छी होती है
  - यदि अच्छे मित्र नहीं मिलते, तो इससे अच्छा है कि कोई मित्र न हो
  - मैत्री हमेशा एक बोझ होती है
24. विद्यालय के नये प्रधानाचार्य ने स्कूल के प्रत्येक छात्र से आग्रह किया है कि वह कम-से-कम एक पाठ्यक्रम इतर गतिविधि को ले। उनकी राय है कि पढ़ाई और पाठ्यक्रम इतर गतिविधियाँ एक साथ चलनी चाहिए। प्रधानाचार्य सोचती हैं कि
- पाठ्यक्रम इतर गतिविधियाँ, पढ़ाई के समान महत्वपूर्ण हैं
  - उनके प्रधानाचार्य पद ग्रहण के पूर्व पढ़ाई को उपेक्षित किया गया
  - विद्यालय में पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों के लिए अच्छी प्रतिभा है
  - प्रत्येक छात्र कई पाठ्यक्रम इतर गतिविधियों में भाग लेना
25. सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए बहुत-से कदम उठाये हैं। इसे आंदोलन का राजदूत बनने के लिए कई सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है। यह दर्शाता है कि
- सुप्रसिद्ध व्यक्ति सरकार से बेहतर काम करेंगे
  - सुप्रसिद्ध व्यक्ति इस कार्यक्रम को आर्थिक योगदान देंगे
  - सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा और अधिक नागरिकों को इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया जा सकता है
  - सरकार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बहुत गंभीर नहीं है
26. सभी चमकने वाली वस्तुयें सोना नहीं होती। इसका अर्थ है कि
- किसी व्यक्ति को उसके रूप-रंग के आधार पर आँकना नहीं चाहिए
  - किसी व्यक्ति के बारे में सही अनुमान उसके रूप-रंग से हमेशा हो जाता है
  - एक कावितवान व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा होता है
  - एक कावितान व्यक्ति कभी अच्छा नहीं होगा
- निर्देश :** (प्रश्न संख्या 27 से 32) : निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के पहले एक कथन है और उसके नीचे दो पूर्णधारणाएँ क्र. 1 व क्र. 2 दी गई हैं। आपको दिये गये पूर्णधारणाओं पर विचार करके तय करना है कि कौन-सी पूर्णधारणा/पूर्वधारणाएँ कथन में प्रभावशाली है/हैं। दिये गये उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनिये :
27. **कथन :** आजकल नदियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।
- पूर्णधारणा 1 :** यह जल संकट को कम करेगा।
- पूर्णधारणा 2 :** यह हमारे पारिस्थितिक जीवन-तंत्र की रक्षा करेगा।
- केवल पूर्णधारणा 1 प्रभावशाली है।
  - केवल पूर्णधारणा 2 प्रभावशाली है।
  - दोनों पूर्णधारणा प्रभावशाली हैं।
  - न तो पूर्णधारणा 1 और न ही पूर्णधारणा 2 प्रभावशाली है।

28. **कथन** : बहुत-सी सरकारी सेवाओं को अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

**पूर्वधारणा 1** : इससे और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

**पूर्वधारणा 2** : इससे और अधिक जवाबदेही आयेगी।

- (a) पूर्वधारणा 1 प्रभावशाली है।  
(b) पूर्वधारणा 2 प्रभावशाली है।  
(c) 1 और 2 प्रभावशाली है।  
(d) न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 प्रभावशाली है।

29. **कथन** : सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है।

**पूर्वधारणा 1** : निचले न्यायालय कुशल नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय बेहतर है।

**पूर्वधारणा 2** : निर्णय में त्रुटि की सम्भावना हो सकती है।

- (a) केवल पूर्वधारणा 1 सही है।  
(b) केवल पूर्वधारणा 2 सही है।  
(c) दोनों पूर्वधारणा सही हैं।  
(d) न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 सही है।

30. **कथन** : बहुत-से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है।

**पूर्वधारणा 1** : यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है।

**पूर्वधारणा 2** : यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है।

- (a) केवल पूर्वधारणा 1 सही है।  
(b) केवल पूर्वधारणा 2 सही है।  
(c) दोनों पूर्वधारणा सही हैं।  
(d) न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 सही है।

31. **कथन** : लगभग सभी नियुक्तियों में पहले के एक अथवा दो वर्ष परिवीक्षा के होते हैं और नौकरी का स्थायीकरण परिवीक्षा की अवधि के बाद होता है।

**पूर्वधारणा 1** : नियोक्ता को कर्मचारी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता।

**पूर्वधारणा 2** : नियोक्ता परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिक काम करवाना चाहता है।

- (a) केवल पूर्वधारणा 1 सही है।  
(b) केवल पूर्वधारणा 2 सही है।  
(c) दोनों पूर्वधारणा सही हैं।  
(d) न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 सही है।

32. **कथन** : आजकल कई प्रवेश परीक्षाएँ 'ऑफलाइन' से 'ऑनलाइन' परीक्षाओं में धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही है।

**पूर्वधारणा 1** : ऑनलाइन प्रणाली अधिक कुशल है।

**पूर्वधारणा 2** : ऑनलाइन प्रणाली और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है।

- (a) केवल पूर्वधारणा 1 सही है।  
(b) केवल पूर्वधारणा 2 सही है।  
(c) दोनों पूर्वधारणा सही हैं।  
(d) न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 सही है।

**निर्देश** : (प्रश्न संख्या 33 से 36) : निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के पहले एक कथन है और उसके बाद दो तर्क क्र. 1 और क्र. 2 दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन-सा/से तर्क 'प्रभावशाली' है और कौन नहीं। अपने निर्णय के आधार पर, सही विकल्प का चयन करें :

33. **कथन** : मेट्रो शहरों के सभी घरों की जल आपूर्ति में कमी है। यह आंशिक रूप से पाइपलाइनों में जल के भारी रिसाव के कारण है।

**तर्क 1** : अनुरक्षण 24 x 7 होना चाहिए और जल-रिसाव को बंद करना चाहिए।

**तर्क 2** : हमको और अधिक जल उसी अथवा कम खर्च पर पंप करना चाहिए।

- (a) तर्क 1 प्रभावशाली है।  
(b) तर्क 2 प्रभावशाली है।  
(c) तर्क 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं।  
(d) न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रभावशाली हैं।

34. **कथन** : ड्राइविंग के समय मोबाइल फोनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

**तर्क 1** : हाँ, इसके कारण सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं।

**तर्क 2** : नहीं, इससे व्यापार में बाधा आयेगी।

- (a) तर्क 1 प्रभावशाली है।  
(b) तर्क 2 प्रभावशाली है।  
(c) तर्क 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं।  
(d) न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रभावशाली हैं।

35. **कथन** : बहुत-से राज्यों में 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को कक्षा 1 में भर्ती नहीं किया जा सकता।

**तर्क 1** : बच्चे में आवश्यक मानसिक और शारिरिक विकास होना चाहिए।

**तर्क 2** : प्रारंभिक वर्षों में बच्चे को अपने माता-पिता के साथ होना चाहिए।

- (a) तर्क 1 प्रभावशाली है।  
(b) तर्क 2 प्रभावशाली है।  
(c) तर्क 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं।  
(d) न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रभावशाली हैं।

36. **कथन** : क्या शिक्षा को कक्षा-12 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए?

**तर्क 1** : नहीं, इससे विद्यालय की शिक्षा को बीच में ही छोड़नेवाले बच्चों को रोजगार देने वाले उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

**तर्क 2** : हाँ, विद्यालय की शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आधार बनाती है।

- (a) तर्क 1 प्रभावशाली है।  
(b) तर्क 2 प्रभावशाली है।  
(c) तर्क 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं।  
(d) न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रभावशाली हैं।




37. नीचे दी गई तालिका के स्तंभों के अंकों में एक निश्चित सम्बन्ध पर विचार कीजिए :

6	18	15
4	3	x
3	2	5
8	27	9

कौन-सा अंक 'x' के स्थान पर लुप्त है?


- (a) 11 (b) 2  
(c) 6 (d) 3

38. नीचे चित्रों में से कौन-सा एक बेमेल है?



- (a) (1)  
(b) (2)  
(c) (3)  
(d) (4)

39. चित्र (P), (Q), (R), (S) में एक विशेष लक्षण की समानता है। नीचे चित्र (1), (2), (3), (4) में से किसी एक चित्र की पहचान कीजिए, जिसमें उसी लक्षण की समानता हो।



- (a) (1) (b) (2)  
(c) (3) (d) (4)

40. निम्नलिखित शब्द की एक ऊर्ध्वाकार दर्पण में प्रतिबिम्ब को पहचानिए।




- (a) **INDORE**  
(b) **ERODNI**  
(c) **INDORE**  
(d) **ERODNI**

41. मान लीजिए कि (1) अभय, भास्कर से लंबा है, (2) चंद्र अभय से लंबा है, (3) ईश्वर, चंद्र से लंबा है, और धीरज सबसे लम्बा है। यदि इन सबको उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है, तो मध्य स्थान पर कौन बैठेगा?

- (a) अभय (b) भास्कर  
(c) चंद्र (d) धीरज

42. जब एक पाँसे को चार बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं :



निम्न संख्याओं में से कौन-सी संख्या पाँसे में '3' के विपरीत पार्श्व में है?

- (a) 1 (b) 4  
(c) 5 (d) 6

43. एक विशेष संकेत भाषा में, DAM को WZN लिखा जाता है। उसी संकेत भाषा में TABLE को कैसे लिखा जायेगा?

- (a) GZYOV (b) FYXNU  
(c) FZXNU (d) HZANW

निर्देश: निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न सं. 44 से 47 का उत्तर दीजिए।

दो परिवार के लोग एक गोल मेज के चारों तरफ बैठकर रात के खाने का आनन्द ले रहे हैं। ये सब लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि सबका मुख मेज के केंद्र की तरफ है और किसी भी दो बगल के लोगों के बीच की दूरी एकसमान है। दोनों परिवारों का विवरण नीचे दिया गया है :

परिवार-1	अरूण (पति)	आशा (पत्नी)	अरूप (पुत्र)	अंजली (पुत्री)
परिवार-2	भास्कर (पति)	बीना (पत्नी)	बीजू (पुत्र)	बृंदा (पुत्री)

ऊपर के लोगों के बैठने का विवरण निम्नलिखित है :

- अरूण और भास्कर ठीक आमने-सामने बैठे हैं
- आशा और बीना ठीक आमने-सामने बैठी हैं
- आशा मेज के सबसे पूर्वी स्थान पर बैठी है
- भास्कर अपनी पत्नी के ठीक दाहिनी तरफ बैठा है
- पुत्र अपने-अपने पिताओं के बगल में बैठे हैं
- पुत्रियाँ अपनी-अपनी माताओं के बगल में बैठी हैं

44. मेज के सबसे उत्तरी स्थान पर कौन बैठा है?

- (a) बीजू (b) अरूप  
(c) भास्कर (d) अरूण

45. बीजू के दाहिनी तरफ कौन बैठा है?

- (a) अंजली (b) बृंदा  
(c) अरूण (d) भास्कर

46. भास्कर के ठीक बगल में बैठे लोग हैं

- (a) बीजू और आशा (b) बीजू और बीना  
(c) अरूप और बीना (d) बीजू और बृंदा

47. बीना के ठीक उत्तर-पूर्व दिशा में कौन बैठा है?

- (a) अरूप (b) बीजू  
(c) अंजली (d) बृंदा

48. एक गोल डायल वाली घड़ी में घंटा, मिनट और सेकण्ड की तीन सुइयाँ हैं। तीनों सुइयाँ 12:00 बजे ठीक एक के ऊपर एक होती हैं। 12:10 बजे घंटा और सेकण्ड वाली सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा?

- (a) 25 (b) 2  
(c) 5 (d) 55

49. कंचन बिन्दु A पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बिन्दु B पर खड़ा है जो कंचन के ठीक पूर्व दिशा में है। कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना आरम्भ करता है। ठीक उसी समय कुमार भी कंचन की दुगुनी गति से सीधे चलना आरम्भ कर देता है। कंचन के 5 किमी. चलने के बाद, कंचन और कुमार दोनों एक-दूसरे से मिल जाते हैं। A और B के बीच की दूरी कितनी है?  
 (a)  $5\sqrt{3}$  किमी. (b)  $3\sqrt{5}$  किमी.  
 (c)  $2\sqrt{3}$  किमी. (d)  $3\sqrt{2}$  किमी.
50. यदि  $6 \times 4 = 12$ ,  $7 \times 5 = 20$ ,  $5 \times 8 = 21$ , तब  $5 \times 7 = ?$   
 (a) 20 (b) 18  
 (c) 24 (d) 35
- निर्देश :** निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न संख्या 51 और 52 का उत्तर दीजिए।
- छः व्यक्ति (A, B, C, D, E और F) एक उपन्यास को पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पुस्तक की केवल एक ही प्रति है। इसलिए उपन्यास को एक समय, एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है। उनके उपन्यास को पढ़ने की विधि को ध्यान से देखने पर निम्नलिखित बातें सामने आती हैं :
- दो व्यक्तियों ने E से पहले उपन्यास को पढ़ लिया है
  - C अंतिम व्यक्ति को उपन्यास देता है।
  - F के पढ़ने के पहले, B और D ने उपन्यास को पढ़ना समाप्त कर दिया है
  - A और F के बीच तीन व्यक्ति हैं, जो पुस्तक पढ़ चुके हैं
  - A को D से उपन्यास नहीं मिलता
51. उपन्यास को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है?  
 (a) D (b) A  
 (c) B (d) F
52. उपन्यास को पढ़ने वाला चौथा व्यक्ति कौन था?  
 (a) D (b) A  
 (c) B (d) F
53. आज, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से दोगुनी है। बीस साल बाद पिता की उम्र, अपने पुत्र की आज की उम्र से तीन गुनी हो जायेगी। आज पुत्र की उम्र कितने वर्ष है?  
 (a) 10 वर्ष (b) 20 वर्ष  
 (c) 30 वर्ष (d) 40 वर्ष
54. एक विशेष पाँसा इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक पार्श्व पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से एक संख्या अंकित है। इस पाँसे को फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में यह देखा गया कि ऊपर और नीचे वाले पार्श्व को छोड़कर, सभी पार्श्वों की संख्याओं का योग 10 के बराबर आता है। पाँसे के ऊपर और नीचे वाले पार्श्वों पर कौन-सी संख्याएँ होंगी?  
 (a) 4 और 5 (b) 4 और 6  
 (c) 5 और 6 (d) 2 और 6
55. एक कार्यालय में कक्षों की संख्या विषम है। हर एक कक्ष में पंखे एवं बल्ब लगे हैं। हर एक कक्ष में लगे बल्बों की संख्या, उस कक्ष में लगे पंखों व बल्बों की संख्या की दुगुनी है। सारे कक्षों में बल्बों की संख्या समान है। सारे कक्षों के कुल पंखों की संख्या मिलाकर तीस है। कार्यालय में कुल कक्षों की संख्या कितनी है?  
 (a) 3 (b) 5  
 (c) 7 (d) 9
56. जिरोक्स मशीन से एक पेज पर बनें एक चित्र को मूल आकार से कम करके 75% कर दिया गया। इस प्रतिलिपि को फिर 20% और छोटा किया गया। अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार था?  
 (a) 15 (b) 10  
 (c) 12 (d) 18
57. एक दो-अंकीय संख्या का वर्गमूल लेने पर रूढ़ संख्या आती है। ऐसी संख्या के दोनों अंको का योग है  
 (a) 8 (b) 13  
 (c) 10 (d) 15
58. एक के बाद एक आने वाली पाँच संख्याओं का योग 665 से अधिक लेकिन 675 से कम है। इन पाँच संख्याओं के सेट में सम संख्याओं का योग है  
 (a) 406 (b) 404  
 (c) 402 (d) 400
59. एक टोकरी में लाल और नीली गेंदें हैं। इस टोकरी में से यदि एक लाल और एक नीली गेंद निकाल दी जाये, तो शेष गेंदों में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से दुगुनी हो जाती है। इनके बाद बची हुई गेंदों में से 3 लाल और 3 नीली गेंदें और निकाल दी जाती हैं। अवशेष लाल गेंदों की अंतिम संख्या, शेष नीली गेंदों की अंतिम संख्या से तीन गुनी पायी जाती है। टोकरी की आरंभिक स्थिति में नीली गेंदों की संख्या है  
 (a) 7 (b) 13  
 (c) 14 (d) 26
60. एक झील से एक शहर को जल आपूर्ति होती है। यह देखा गया है कि पहले और दूसरे महीने में शहर एक ही मात्रा में जल का उपभोग करता है। अगले चार महीनों में जल उपभोग की मासिक दर, पहले दो महीनों की तुलना में आधी रह जाती है। इसके बाद यह पर्यवेक्षित किया गया कि झील में शेष जल, आरंभिक मूल आयतन का आधा है। दूसरे महीने में उपभोग किये गये जल और झील के आरंभिक जल के आयतन का अनुपात है  
 (a)  $1/6$  (b)  $1/8$   
 (c)  $1/12$  (d)  $1/10$
61. किसी संख्या के घन और वर्ग में अंतर, उसकी दुगुनी संख्या के वर्ग के बराबर देखी गई। संख्या है  
 (a) 4 (b) 5  
 (c) 6 (d) 8

62. रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर खर्च करता है। अपने पास बचे शेष धन से वह 10% फोन के बिल पर, 20% बिजली के बिल पर और 10% कपड़े की धुलाई के बिल पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास ₹ 7,200 बच जाते हैं। रमेश की मासिक आय है
- (a) ₹ 16,364 (b) ₹ 36,000  
(c) ₹ 20,000 (d) ₹ 22,909
63. एक घड़ी का वर्तमान चिह्नित मूल्य उसकी असली निर्माण लागत से 20% अधिक है। यदि दुकानदार घड़ी को चिह्नित मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय लेता है, तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमायेगा?
- (a) 8 (b) 10  
(c) 12 (d) 14
64. तीन संख्याओं का एक अनुक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि अनुक्रम की अगली संख्या, पिछली संख्या का वर्ग है। इस अनुक्रम में तीन संख्याओं के कुल योग का परिमाण 50 और 99 के बीच में है। योग के पहले और दूसरे अंकों के अनुपात का परिणाम कितना है?
- (a) 2 (b) 0.5  
(c) 3 (d) 0.33
65. चार व्यक्तियों P, Q, R और S का औसत भार 40 किग्रा. है। Q का भार P से दुगना, S का भार R से 10 किग्रा. कम और Q तथा R के भार में अंतर 55 किग्रा. है। P और S का किग्रा. में भार है, क्रमशः
- (a) 15 और 40 (b) 40 और 15  
(c) 25 और 80 (d) 80 और 25
66. एक कक्षा का औसत अंक 40 है। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर यह पाया गया कि कक्षा का नया औसत 30 हो जाता है। यह भी देखा गया है कि इस बचे हुए छात्रों के अंकों का कुल योग, पूर्ण कक्षा के कुल योग का 60% है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है
- (a) 10 (b) 8  
(c) 5 (d) 4
67. एक रसायन-विज्ञानी द्वारा एक घोल तैयार किया गया, जिसमें जल का आयतन, कुल आयतन का 30% है। इस घोल में 5 लिटर जल डालने पर यह देखा गया है कि जल का आयतन बढ़कर 40% हो गया है। प्रारम्भिक घोल में जल कितने लिटर था?
- (a) 35 (b) 30  
(c) 14 (d) 9

**निर्देश :** प्रश्न संख्या 68 से 72 का उत्तर निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करने के बाद दीजिए। यह पाई चार्ट ₹ 36,000 मासिक आय वाले परिवार के प्रतीकात्मक मासिक बजट को दिखाती है।



68. आहार और चिकित्सा के खर्चों के लिए बजट की राशियों का अंतर कितना है?
- (a) ₹ 18,000 (b) ₹ 14,400  
(c) ₹ 5,000 (d) ₹ 9,000
69. उस परिवार ने वर्तमान महीने में टेलीफोन बिल पर ₹ 3,800 खर्च किए। मान लीजिए बाकी सभी खर्च यदि बजट के अनुसार हैं, तो परिवार ने इस वर्तमान महीने में कितने रुपये बचत/निवेश किए?
- (a) ₹ 2,000 (b) ₹ 1,200  
(c) ₹ 2,800 (d) ₹ 7,200
70. किसी विशेष महीने में उस परिवार ने ₹ 4,500 आहार पर खर्च किए। एक माह बजट राशि का कितना प्रतिशत आहार पर खर्च किया गया?
- (a) 40 (b) 50  
(c) 60 (d) 80
71. किसी विशेष महीने में उस परिवार ने मनोरंजन की बजट राशि का केवल 80% खर्च किया, तो व्यय है
- (a) ₹ 4,600 (b) ₹ 4,000  
(c) ₹ 14,400 (d) ₹ 14,600
72. नवम्बर के महीने में परिवार का वेतन, पिछले महीने के मकान किराया, बच्चों की शिक्षा और टेलीफोन बिल के लिए कुल बजट की राशि के बराबर बढ़ जाता है। नवम्बर महीने के दौरान परिवार मकान किराया और बच्चों की शिक्षा के लिए पिछले वेतन (बढ़ने के पहले) पर आधारित बजट राशि के एकदम बराबर खर्च करता है। नवम्बर में बढ़े हुए वेतन के आधार पर, मकान किराये और बच्चों की शिक्षा पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत व्यय किए गए?
- (a) 10 (b) 15  
(c) 20 (d) 25
73. किसी दो-अंकीय संख्या का वर्गमूल, उसके दोनों अंकों के जोड़ के बराबर है। एक कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या ऐसी ही दो-अंकीय संख्या है। कक्षा में प्रेमा का स्थान ऐसा है कि उसके नीचे के विद्यार्थियों की संख्या, उसके ऊपर के विद्यार्थियों की संख्या की चार गुनी है। कक्षा में प्रेमा का स्थान है
- (a) 13 (b) 15  
(c) 17 (d) 19

74. वरुण 5 किमी. की दूरी 30 किमी./घंटा की चाल से तय करता है। फिर अगले 10 किमी. की दूरी वह 40 किमी./घंटा की चाल से तय करता है। अंततः वह आखिरी 35 किमी. की दूरी 60 किमी./घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान वरुण की औसत चाल, किमी/घंटा में, है
- (a) 35 (b) 40  
(c) 45 (d) 50
75. आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको सूचित किया जाता है कि रिश्तेदार डॉक्टर पर हमला कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?
- (a) हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे  
(b) तुरन्त अस्पताल पहुँचेंगे और रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करने से रोकेंगे  
(c) अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश की प्रतीक्षा करेंगे  
(d) अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद अस्पताल का दौरा करने के लिए कहेंगे
76. आप एक निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। आपके पास ऐसा मरीज आता है जिसके पास कुछ लाख की बीमा सुरक्षा है। आपके सहयोगी कुछ ऐसे परीक्षणों के लिए आदेश देना चाहते हैं जो कि वास्तव में आवश्यक नहीं हैं। आप क्या करेंगे?
- (a) अपने सहयोगी को परीक्षण के लिए आदेश की अनुमति देंगे  
(b) अपनी तरफ से कुछ और परीक्षणों का सुझाव देंगे  
(c) अपने सहयोगी की सूची से कुछ परीक्षणों को कम कर देंगे  
(d) केवल आवश्यक परीक्षणों के लिए आदेश देंगे और अपने सहयोगी को ऐसा करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनायेंगे
77. आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं। एक गैर-सरकारी संगठन के कुछ स्वयंसेवकों ने एक विद्यालय में चित्रकारी कर दी है, मगर उन्होंने चित्रकारी के पहले आपसे अनुमति नहीं ली। आप क्या करेंगे?
- (a) स्वयंसेवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करेंगे  
(b) स्वयंसेवकों से मिलेंगे और समझायेंगे कि अनुमति लेना क्या आवश्यक है और पूर्वप्रभावी अनुमति दे देंगे  
(c) स्वयंसेवकों को चित्रकारी को साफ कर पूर्णवत् करने को कहेंगे  
(d) सरकारी संपत्ति को विरूप करने के आरोप में स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करेंगे
78. आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपके ऊपर स्थानीय राजनीतिक गुट के द्वारा अपने एक अधीनस्थ का स्थानांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उसने उनके नेता को ठेका देने से मना कर दिया। आप क्या करेंगे?
- (a) अपने सहयोगी के निर्णय का समर्थन करेंगे और उसका स्थानांतरण नहीं करेंगे  
(b) सहयोगी का स्थानांतरण कर देंगे ताकि राजनीतिक गुट आपके लिए मुसीबत न पैदा करे  
(c) अपने सहयोगी को छुट्टी पर जाने को कहेंगे और उसकी अनुपस्थिति में राजनीति गुट के नेता का पक्षपात करेंगे  
(d) अन्य राजनीतिक गुटों को इस दबाव के बारे में सूचित करेंगे ताकि राजनीतिक दबाव हट जाये
79. आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी माँगी गई है। आपको विश्वास है कि आप जानकारी माँगने वाले व्यक्ति को जानते हैं और आप आश्वस्त हैं कि जानकारी का दुरुपयोग किया जायेगा। आप क्या करेंगे?
- (a) आप जानकारी न देने के लिए उपाय ढूँढ़ेंगे  
(b) जानकारी दे देंगे  
(c) गलत जानकारी देंगे ताकि उसके दुरुपयोग की सम्भावना को कम-से-कम किया जा सके  
(d) जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी देरी करेंगे
80. आप एक कंपनी की सलाहकार परिषद् के सदस्य हैं, जिसके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई गई है। स्थानीय नगर निगम ने आपको तथ्यान्वेषी समिति का एक सदस्य बना दिया है। आप क्या करेंगे?
- (a) समिति का काम स्वीकार करने से पहले परिषद् की सदस्यता अस्वीकार कर देंगे  
(b) हितों के टकराव का हवाला देते हुए समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देंगे  
(c) उपर्युक्त विकल्पों में से (a) अथवा (b)  
(d) समिति की सदस्यता को स्वीकार करेंगे ताकि समिति की रिपोर्ट कंपनी के अनुकूल हो
- निर्देश** (प्रश्न संख्या 81 से 85) : दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- गद्यांश-1**
- कालक्रम की दृष्टि से 'कला जीवन के लिए' का सिद्धान्त बहुत ही पुराना है। साहित्य-सृजन के शुरुआती दौर से ही कला को नैतिक उद्देश्यपूर्ति का साधन बनाया गया है। कला को जीवनोपयोगी मानने सम्बन्धी धारणा का प्राधान्य सबसे अधिक पश्चिम में रहा है। जबकि यह धारणा आदिकालीन एवं देशातीत है। पश्चिम में कला का आरम्भिक स्वरूप उपदेशात्मक रहा, जिसका कारण यह है कि पश्चिम की शास्त्रीय कला धर्म के संरक्षण में पनपी और विकसित हुई। शुद्ध कलावादी दृष्टि का इस युग में प्रायः अभाव ही रहा। धर्म से प्रेरित कला-साहित्य का उपदेशात्मक होना स्वाभाविक ही है।
81. साहित्य-सृजन को प्राचीनकाल से किसकी पूर्ति को साधन बनाया गया?
- (a) राजनैतिक उद्देश्य (b) धार्मिक उद्देश्य  
(c) आध्यात्मिक उद्देश्य (d) नैतिक उद्देश्य



82. पश्चिम में कला का प्रारम्भिक स्वरूप कैसा रहा?  
 (a) आध्यात्मिक  
 (b) उपदेशात्मक  
 (c) कलात्मक  
 (d) शास्त्रीय
83. पश्चिम की शास्त्रीय कला किसके संरक्षण में विकसित हुई?  
 (a) धर्म के संरक्षण में  
 (b) राजनीति के संरक्षण में  
 (c) मानव के संरक्षण में  
 (d) संतों के संरक्षण में
84. पश्चिम की कला सम्बन्धी धारणा क्या थी?  
 (a) धर्मोपयोगी  
 (b) जीवनोपयोगी  
 (c) समाजोपयोगी  
 (d) अर्थोपयोगी
85. पश्चिम की कला में किस दृष्टि का अभाव रहा?  
 (a) पूँजीवादी  
 (b) मार्क्सवादी  
 (c) कलावादी  
 (d) रसवादी
88. हिन्दी के प्रसार-प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है?  
 (a) सामाचार-पत्रों का  
 (b) पत्रिकाओं का  
 (c) समाज का  
 (d) मीडिया और सिनेमा का
89. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ?  
 (a) 1961  
 (b) 1960  
 (c) 1958  
 (d) 1954
90. कौन-सा देश भारत के ज्यादा करीब है?  
 (a) पाकिस्तान  
 (b) श्रीलंका  
 (c) मॉरीशस  
 (d) अमेरिका

निर्देश (प्रश्न सं. 91 से 95) : दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

### गद्यांश-3

रोमांटिक और आधुनिक दृष्टिकोणों का एक और अन्तर उनके अपने सामाजिक परिवेशों के कारण है। रोमांटिसिज्म का विकास विशेष रूप से उदारतावादी युग में हुआ, जबकि आधुनिकता का उदय प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अन्तर्गत होता है। उदारतावाद और रोमांटिसिज्म में व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि महत्व है, प्रजातंत्र इस व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को मानते हुए भी सामाजिक दायित्वों को एक स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है, स्वातंत्र्य और दायित्व इस पद्धति में अविच्छिन्न मूल्य हैं। आधुनिकता को मानने वाला सृजनात्मक मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है।

निर्देश (प्रश्न सं. 86 से 90) : दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

### गद्यांश-2

हिन्दी के प्रसार के लिए तथा सम्पूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन् 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन् 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिन्दी का खूब प्रचार-प्रसार हुआ है, जिसमें हिन्दी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिन्दी आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरीशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिन्दी को पढ़ाया जा रहा है।

86. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना कब हुई?  
 (a) 1961  
 (b) 1960  
 (c) 1958  
 (d) 1963
87. भाषायी आंदोलनों के बावजूद हिन्दी का प्रचार-प्रसार कहाँ हुआ है?  
 (a) पूर्वी भारत  
 (b) पश्चिमी भारत  
 (c) पूर्वोत्तर भारत  
 (d) दक्षिण भारत
91. रोमांटिसिज्म का विकास किस युग में हुआ?  
 (a) पूँजीवादी युग  
 (b) उदारवादी युग  
 (c) प्रयोगवादी युग  
 (d) प्रगतिवादी युग
92. आधुनिकता का उदय किन पद्धतियों के अन्तर्गत हुआ?  
 (a) प्रजातांत्रिक  
 (b) लोकतांत्रिक  
 (c) तानाशाही  
 (d) राजशाही
93. उदारतावाद और रोमांटिसिज्म में किसका सर्वोपरि महत्व है?  
 (a) उदारतावाद  
 (b) व्यक्तिवाद  
 (c) व्यक्ति की पराधीनता  
 (d) व्यक्ति की स्वाधीनता

94. आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है?
- (a) आर्थिक मूल्य  
(b) वर्णनात्मक मूल्य  
(c) सृजनात्मक मूल्य  
(d) वर्जनात्मक मूल्य
95. प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है?
- (a) सामाजिक दायित्व  
(b) राजनैतिक दायित्व  
(c) प्रजातांत्रिक दायित्व  
(d) लोकतांत्रिक दायित्व
- निर्देश** (प्रश्न सं. 96 से 100) : दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**गद्यांश -4**

किसी भी देश की प्रगति वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे किए गए औद्योगिकरण पर निर्भर है। यही किसी भी उन्नत देश की कसौटी मानी जाती है। जहाँ पर पूर्ण रूप से औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है, वहाँ उसी अनुपात में गरीबी और पिछड़ापन रहता है। विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है, उसे भौतिक स्तर पर समुन्नत बनाया है, परन्तु एक सत्य यह भी है कि हमें नाना प्रकार की भौतिक सुविधाएँ देकर उसने हमारी कोमल मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर दिया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या हम ईमानदारी से अपने को मानव कह पाएँगे।

96. विज्ञान हमें क्या देता है?
- (a) सामाजिक उपलब्धियाँ  
(b) भौतिक उपलब्धियाँ  
(c) आध्यात्मिक उपलब्धियाँ  
(d) राजनैतिक उपलब्धियाँ
97. विज्ञान के विकास के साथ-साथ हम क्या खोते जा रहे हैं?
- (a) हिंसा  
(b) क्रूरता  
(c) प्रेम  
(d) संवेदना
98. किसी भी देश को किसके बल पर उन्नत कहा जा सकता है?
- (a) समाजीकरण  
(b) औद्योगिकीकरण  
(c) राजनीतिकरण  
(d) भूमंडलीकरण
99. विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदला है?
- (a) आंशिक रूप से  
(b) बहुत हद तक  
(c) पूर्ण रूप से  
(d) किसी रूप में नहीं
100. गरीबी और पिछड़ेपन का मापदंड क्या है?
- (a) सही नेतृत्व का न होना  
(b) औद्योगिकीकरण का न होना  
(c) व्यापारीकरण का न होना  
(d) सही समान का न होना